

चुनाव कराने जायेंगे बिहार से 30 अधिकारी



26 आइएएस व चार आइपीएस हैं शामिल, दो को बैठक

पटना : देश के पांच राज्यों में हो रहे चुनाव के लिए बिहार से 30 आलाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है।

ये सभी अधिकारी पांचों राज्यों में बतौर पर्यवेक्षक (आब्जर्वर) के रूप में काम करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

पांच राज्यों में हैं चुनाव

विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार देश के पांच राज्यों में उत्तरप्रदेश, उत्तरांचल, गोवा, पंजाब व मणिपुर में हो रहे चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग की ओर से अधिकारियों की मांग की गयी थी।

इसके बाद ही विभाग ने 31 अधिकारियों का पैन्ल तैयार किया। इसमें 26 आइएएस व पांच आइपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया। इसी बीच आइपीएस विनीत विनायक के मूल कैडर सिक्किम वापस जाने के कारण अब बिहार से चार आइपीएस अधिकारी ही चुनाव कार्य में भाग लेने जायेंगे।

चुनाव कार्य में जा रहे अधिकारियों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 16 अधिकारी हैं, जबकि 10 वैसे अधिकारी शामिल हैं, जिनका मूल कैडर बिप्रसे का है और हाल ही में उन्हें भाप्रसे के अधिकारी के रूप में प्रोन्नति मिली है।

इन अधिकारियों को आगामी दो जनवरी को नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनाव आयोग के साथ बैठक में शामिल होना है। उस बैठक में ही इन अधिकारियों को चुनाव होनेवाले राज्यों में ड्यूटी लगायी जायेगी। चुनाव कार्य होने के बाद ही सभी 30 अधिकारी बिहार में वापस आ सकेंगे।

16 आइएएस

अमिताभ वर्मा, आनंद किशोर, सीके अनिल, एन बाला प्रसाद, लियान कुंगा, मनीष कुमार, प्रेम कुमार झा, आरके खंडेलवाल, राजेश गुप्ता, राजेश कुमार, एस शिव कुमार, संजीव कुमार सिन्हा, वंदना किन्नी, विमला नंद झा, विपिन कुमार व योगेंद्र भट्ट

10 नवप्रोन्नत आइएएस

अनिल कुमार, धीरेंद्र मोहन झा, इफतेखार हसन, मिसबाह बारी, परमानंद झा, राघवेंद्र झा, राजीव कुमार सिंह, रामप सिंह, संजय कुमार सिंह व उपेंद्र कुमार

चार आइपीएस

निर्मल आजाद, बलदेव प्रसाद, एचएन देवा व शैलेश कुमार सिन्हा।